

**April 26, 2025**

**To,**

**BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Mumbai - 400 001

**Scrip Code: 532529**

**National Stock Exchange of India Limited**

Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> floor, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East) Mumbai - 400 051

**Scrip Symbol: NDTV**

**Sub: Submission of Newspaper Publication of Audited Financial Results for the quarter and financial year ended March 31, 2025**

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith, copies of the newspaper publication for Statement of Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the Company, for the quarter and financial year ended March 31, 2025, published on April 26, 2025, in the following newspapers:

- Financial Express;
- Jansatta.

You are requested to take the same on record.

Thanking you,

Yours sincerely,

**For New Delhi Television Limited**

---

**Parinita Bhutani Duggal**  
**Company Secretary and Compliance Officer**

**Encl: as above**



MOP-UP AT ₹22.26 LAKH CR AGAINST TARGET OF ₹22.42 LAKH CR

FY25 direct tax receipts fall marginally short of RE

● Shortfall largely on account of surge in I-T refunds


FE BUREAU  
New Delhi, April 25

**THE CENTRE'S DIRECT** tax collections stood at ₹22.26 lakh crore in FY25, falling short of the revised estimate (RE) of ₹22.42 lakh crore by 0.7%, largely due to a surge in many refunds.

These are collections before the devolution to states, termed "gross collections" in the Budget.

Corporate tax collections came in at ₹9.86 lakh crore, 0.6% higher than the respective RE of ₹9.8 lakh crore for the year. The corporate tax receipts exceeded the RE

MISSING ESTIMATE



\*After refunds but before devolution to states; \*Including STT

despite a 29% annual jump in refunds at ₹2.86 lakh crore in the financial year 2025.

However, it must be noted that in the Budget presented on February 1, the government had revised the estimates of corporate tax receipts. As against the Budget estimates of ₹10.2 lakh crore, the RE was down 3.9%.

Personal income tax receipts, including securities transaction tax (STT) came in at ₹12.4 lakh crore, 1.6% lower than the RE for FY25.

Personal income refunds rose 22% on year to ₹1.91 lakh crore.

The Budget raised the target for personal income tax collections including STT, by

5.9% to ₹12.62 lakh crore against the Budget estimates of ₹11.92 lakh crore.

STT receipts surged by 56% on year to ₹53,296 crore in FY25 compared with ₹34,192 crore in FY24, reflecting the stock market boom in the past one year.

The marginal shortfall in direct tax receipts (before devolution) won't have any impact on the Centre's finances, given higher non-tax receipts by way of dividends from the Reserve Bank of India and central public sector enterprises.

Gross tax collections are the gauge of revenue efficiency; rate of growth of such tax mop-up versus the expansion rate of nominal gross domestic product denoting tax buoyancy in the economy.

Overseas remittances by Indians under LRS down 29% this February: RBI data

GEORGE MATHEW  
Mumbai, April 25

**OVERSEAS REMITTANCES** BY Indian residents under the Liberalised Remittance Scheme (LRS) of the Reserve Bank of India (RBI) fell by 29% to \$1,964.21 million in February 2025 from \$2,768.89 million in January.

According to RBI data, remittances for travel purpose declined by 33.77% to \$1,090.61 million in February 2023 from \$1,646.74 million in the previous month. Outflows under the 'studies abroad' category declined by 50.52% to \$182.17 million in February from \$368.21 million in January.

Remittances for 'travel and studies abroad' declined in the wake of the sharp fall in students going abroad.

It is learnt that for the first time in four years, the number of Indian students heading to foreign universities has simultaneously declined across the top three destination countries — Canada, the United States and the UK. The data shows a sharp decline of at least 25 per cent in Indian students receiving study permits

50% FALL IN STUDIES ABROAD

■ For the first time in four years, the number of Indian students heading to foreign universities has declined across the top three nations



■ Remittances for travel declined 33.77% while outflows under the 'studies abroad' category fell 50.52%

■ The fall in 'travel and studies abroad' was in the wake of the sharp fall in students going abroad

■ The Budget hiked the limit for collecting TCS on LRS transactions from ₹7 lakh to ₹10 lakh in Feb

across these key destinations in 2024.

Moreover, according to travel industry sources, a good number of people dropped or postponed their travel plans since the global economy and markets faced volatile movements during the period.

RBI data shows that remittances for investment in equity and debt spurted to \$173.84 million in February from \$104.98 million in the previous month.

The Union Budget in February 2025 increased the thresh-

old for collecting Tax Collected at Source (TCS) on LRS transactions from Rs 7 lakh to Rs 10 lakh. This change was expected to benefit the travel and foreign exchange sectors, providing a boost to outbound tourism, education and the airline sectors.

Under the Liberalised Remittance Scheme, resident individuals, including minors, can freely remit up to \$ 2,50,000 per financial year for permissible current or capital account transactions. These transactions include education,

medical treatment abroad, purchase of property, and investments in foreign stocks.

Outward remittances under LRS were \$ 31.735 billion during the year ended March 2024. Travel has emerged as the primary source of remittance outflow from India, accounting for over 50 per cent of total outflows at \$17 billion from just 1.5 per cent share in FY14. Student remittances were \$3.47 billion in FY24.

Tax Collected at Source is not an additional tax liability as people can claim a refund while filing income tax returns. As per the TCS rates under Liberalised Remittance Scheme proposed in the 2023-24 Budget, overseas tour package attracted TCS of 20 per cent from October 1, compared to 5 per cent. However, TCS will not be levied on credit card spending abroad.

LRS remittance processed by the bank as an Authorised Dealer towards air travel ticket booking or hotel booking by a resident individual customer would be subject to TCS of 20 per cent above Rs 10 lakh, according to a leading private bank.

Ireda files EoW complaint against Gensol for falsified documents

ARUNIMA BHARADWAJ  
New Delhi, April 25

**STATE-RUN INDIAN** Renewable Energy Development Agency (Ireda) on Friday said that it has initiated an internal review following recent developments concerning Gensol Engineering and its promoters & associate companies in accordance with RBI guidelines and the company's due diligence protocols. The company has filed a complaint on above matters with the Economic Offences Wing, it said.

The public sector non-banking financial company said that Gensol's account is currently under stress but is not classified as a non-performing asset (NPA).



"The Investigation and Risk Committees of Ireda are closely examining the matter. Appropriate actions regarding collaterals and recoveries will be taken based on the outcome of the review," Ireda said.

Regarding communications from credit rating agencies on the falsified documents, Ireda clarified that it did not issue the letters they

referred to. "The promoters have diluted their shareholdings without lenders approval, constituting breach of contract."

In light of this, Ireda has filed a complaint on above matters with the Economic Offences Wing (EoW) against Gensol on 24th April 2025," the company said.

Gensol, also the parent company of BluSmart, is accused of fabricating letters from its two lenders — Power Finance Corp (PFC) and the Indian Renewable Energy Development Agency Ltd (Ireda) — to falsely demonstrate that it was regular in debt servicing. The deception was uncovered when credit rating agencies started cross-checking the letters with the

lenders. Earlier, PFC had also filed a complaint with the Economic Offences Wing of the Delhi police against Gensol Engineering Ltd over alleged filing of falsified documents.

"PFC has filed a complaint with the Economic Offences Wing (EoW) concerning the issuance of falsified documents. PFC is committed to safeguarding its interests and ensuring the recovery of its loan while upholding transparency in its operations," the company had said.

In March, both CARE Ratings and ICRA had downgraded Gensol's credit ratings to "D", signifying the company's default status, indicating delays in loan repayments.

<b>Business</b> 15.30% ↑	<b>Advances</b> 17.76% ↑	<b>RAM</b> 19.68% ↑	<b>Vehicle Loan</b> 46.60% ↑	<b>Deposits</b> 13.44% ↑	<b>CASA</b> 53.28%			
<b>AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025</b> (₹ In Crore)								
<b>RoA Qtr.</b> 1.79% ↑	<b>Sr No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Standalone</b>			<b>Consolidated</b>		
			<b>Quarter Ended 31/03/2025 (Audited)</b>	<b>Year Ended 31/03/2024 (Audited)</b>	<b>Year Ended 31/03/2025 (Audited)</b>	<b>Quarter Ended 31/03/2025 (Audited)</b>	<b>Year Ended 31/03/2024 (Audited)</b>	<b>Year Ended 31/03/2025 (Audited)</b>
<b>NIM Qtr.</b> 4.01% ↑	1	Total Income from Operations	7711.44	23492.56	28401.62	7720.70	23509.38	28423.52
	2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1536.49	4359.47	5722.48	1545.83	4376.51	5744.86
<b>Cost to Income Qtr.</b> 38.50% ↓	3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1536.49	4359.47	5722.48	1545.83	4376.51	5744.86
	4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1493.08	4055.03	5519.79	1502.32	4071.78	5541.78
<b>Gross NPA</b> 1.74% ↓	5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	—	—	—	—	—	—
	6	Paid up Equity Share Capital	7691.55	7081.37	7691.55	7691.55	7081.37	7691.55
<b>Net NPA</b> 0.18% ↓	7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as on date	18903.46	11149.18	18903.46	19122.17	11345.91	19122.17
	8	Securities Premium Account	3867.25	977.44	3867.85	3867.25	977.44	3867.25
<b>PCR</b> 98.26%	9	Net Worth	25880.52	17177.58	25880.52	—	—	—
	10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt%	25.19	72.65	25.19	—	—	—
	11	Outstanding Redeemable Preference Shares	—	—	—	—	—	—
	12	Debt** Equity Ratio	0.72	0.42	0.72	—	—	—
	13	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	1.94	5.78	7.48	1.95	5.80	7.51
		1. Basic : (Not Annualised)	—	—	—	—	—	—
		2. Diluted :	—	—	—	—	—	—
	14	Capital Redemption Reserve	—	—	—	—	—	—
	15	Debtenture Redemption Reserve	—	—	—	—	—	—
	16	Debt Service Coverage Ratio	—	—	—	—	—	—
	17	Interest Service Coverage Ratio	—	—	—	—	—	—
*Total Debts & Outstanding Debt represents total borrowings of the Bank. **Debt represents borrowings with residual maturity of more than one year.								
<b>Note:</b> The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 read with regulation 63(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (BSE: <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and NSE: <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> ) and Bank's website ( <a href="http://www.bankofmaharashtra.in">www.bankofmaharashtra.in</a> )								
Place: Pune Date: 25/04/2025			<b>Rohit Rishi</b> Executive Director		<b>Asheesh Pandey</b> Executive Director		<b>Nidhu Saxena</b> Managing Director & CEO	
			<b>Bank of Maharashtra</b>					
<a href="http://www.bankofmaharashtra.in">www.bankofmaharashtra.in</a>   Toll Free No. : 1800 233 4526   Follow us @ mahabank : 								

**PUBLIC NOTICE**  
[GARWARE HI-TECH FILMS LTD]  
Registered Office: [ Naigaon, Post Waluj, Aurangabad, Maharashtra, 431133]  
**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**  
NOTICE is hereby given that the Certificate[s] for the under mentioned securities of the Company has/have been lost/misplaced and holder[s] of the said securities/applicant[s] has/have applied to the Company to issue duplicate certificate[s].  

Name of the holder	Folio No[s]	Cert No Start	Cert No End	Dist no Start	Dist no End	No of Shares	
M J GANDHI	00011659	10	318392	318395	12161505	12161704	200
M J GANDHI	00011659	10	320837	320838	12283755	12283854	100

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificate[s].  
Any person who has any claim in respect of the said share certificate[s] should lodge such claim with the Company or its Registrar and Transfer Agents Link Intime India Private Limited 247 Park, C-101, 1st Floor, L.B.S. Marg, Vikhroli(w), Mumbai - 400083. TEL: 8108116767 with 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue with the Duplicate Share Certificate[s].  
Place : Mumbai  
Date: 25.04.2025

**MAHESH JAMANADAS GANDHI**  
Name[s] of the holder[s] / Legal Claimant

**Indian Bank**  
Corporate Office, Chennai  
Indian Bank, a leading Public Sector Bank, has floated the RFP for Supply, Installation and Maintenance of Terminal Security Solution for ATMs & Cash Recyclers.  
Interested parties may refer Bank's Website:  
<https://www.indianbank.in/tenders&GeM> portal for details.

**Indian Bank**  
Corporate Office, Chennai  
Indian Bank, a leading Public Sector Bank, has floated the RFP for Supply, Installation and Maintenance of Terminal Security Solution for ATMs & Cash Recyclers.  
Interested parties may refer Bank's Website:  
<https://www.indianbank.in/tenders&GeM> portal for details.

**Orient Electric Limited**  
Registered Office: Unit VIII, Plot No. 7, Bhojpur, Bhubaneswar-751012, Odisha.  
Tel: 0674-2396930, Fax: 0674-2396364, Email: [investor@orientelectric.com](mailto:investor@orientelectric.com)  
Website: [www.orientelectric.com](http://www.orientelectric.com), CIN: L31100OR2016PLC025892

**Extract of the Audited Financial Results for the year ended March 31, 2025 (INR in crores)**

S.No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31-Mar-2025 Audited	31-Dec-2024 Un-Audited	31-Mar-2024 Audited	31-Mar-2025 Audited
1.	Total Revenue	861.85	816.82	787.66	3093.68
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional Items and/or Extraordinary items)	42.14	36.62	13.49	112.25
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	42.14	36.62	13.49	112.25
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	31.26	27.17	12.8	83.21
5.	Total Comprehensive Income for the period	31.58	27.25	14.02	83.77
6.	Equity Share Capital	21.34	21.34	21.34	21.34
7.	Other Equity	—	—	—	672.96
8.	Earnings Per Share (of Rs. 1 - each)	—	—	—	—
	Basic:	1.46	1.27	0.6	3.9
	Diluted:	1.46	1.27	0.6	3.9

**Note**

1. The above financial results of the Company were reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 25 April 2025.

2. The Board of Directors at their meeting held on 25 April 2025 recommended a final dividend of Rs. 0.75(@75%) per equity share of Re. 1 each of the Company, making a total dividend of Rs. 1.50 (@150%) per equity share of Re. 1 each for the financial year 2024-25, including interim dividend of Rs. 0.75 (@75%) per equity share declared earlier during the financial year 2024-25. Final Dividend is subject to the approval of the shareholders.

3. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2025 are available on the websites of the Stock Exchanges ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)/ [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and Company's website ([www.orientelectric.com](http://www.orientelectric.com)).

Place: New Delhi  
Dated: 25 April, 2025

**For Orient Electric Limited**  
sd -  
Ravindra Singh Negi  
Managing Director & CEO

**New Delhi Television Limited**  
CIN: L92111DL1988PLC033099  
Regd. Off.: W-17, 2nd Floor, Greater Kailash – I,  
New Delhi-110048  
Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 Fax: 2923 1740  
E-mail: [corporate@ndtv.com](mailto:corporate@ndtv.com); Website: [www.ndtv.com](http://www.ndtv.com)

**Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March 2025.**  
(Rs. in Lakhs except per share data)

Particulars	Standalone			Consolidated		
	3 months ended (31/03/2025)	Current year ended (31/03/2025)	Corresponding 3 months ended (31/03/2024) in the previous year	3 months ended (31/03/2025)	Current year ended (31/03/2025)	Corresponding 3 months ended (31/03/2024) in the previous year
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
Total income from operations (net)	8,095	26,172	6,512	12,705	46,503	10,652
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	(5,228)	(19,979)	(675)	(6,238)	(21,513)	(840)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and extraordinary items)	(5,228)	(19,979)	(675)	(6,238)	(21,513)	(840)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and extraordinary items)	(5,228)	(19,979)	(675)	(6,086)	(21,609)	(848)
Total Comprehensive Income for the period	(5,177)	(20,070)	(670)	(6,030)	(21,725)	(849)
Equity share capital	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579
Other equity	—	14,052	—	—	3,294	—
Earning Per Share ( of Rs. 4/- each) (for continuing and discontinuing operations)	(8.11)	(30.99)	(1.05)	(9.44)	(33.52)	(1.31)
Diluted:	(8.11)	(30.99)	(1.05)	(9.44)	(33.52)	(1.31)

Note: Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website ([www.ndtv.com](http://www.ndtv.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)), and on the Company's website, [www.ndtv.com](http://www.ndtv.com). The same can be accessed by scanning the QR code provided below:

Place: Mumbai  
Date: 25 April 2025

On behalf of Board of Directors  
For New Delhi Television Limited  
Sanjay Puggalia  
Whole-time Director  
DIN: 08360398



